

برائے چند گڑھ، آجرہ، گڈہنگ لچ و اطراف - برائے چंदगड अजरा गढहिंगलच व अतराफ

مغرب کا وقت افطاری سے اور فجر کا وقت سحری کے دس منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔ مگر صبح کا وقت اہفتاری سے اور فجر کا وقت سحری کی دس منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔

ईशा	अफ्तारी	असर	ज़ोहर	सहरी	अप्रैल, मई 2020	रमजान 1441
08:06 PM	06:55 PM	04:56 PM	12:31 PM	04:47 AM	26, Sun	1
08:07 PM	06:55 PM	04:56 PM	12:31 PM	04:47 AM	27, Mon	2
08:07 PM	06:56 PM	04:56 PM	12:31 PM	04:46 AM	28, Tue	3
08:07 PM	06:56 PM	04:56 PM	12:31 PM	04:45 AM	29, Wed	4
08:08 PM	06:56 PM	04:56 PM	12:31 PM	04:44 AM	30, Thu	5
08:08 PM	06:56 PM	04:56 PM	12:31 PM	04:44 AM	01, Fri	6
08:09 PM	06:57 PM	04:55 PM	12:31 PM	04:43 AM	02, Sat	7
08:09 PM	06:57 PM	04:55 PM	12:31 PM	04:43 AM	03, Sun	8
08:09 PM	06:57 PM	04:55 PM	12:30 PM	04:42 AM	04, Mon	9
08:10 PM	06:58 PM	04:56 PM	12:30 PM	04:41 AM	05, Tue	10
08:10 PM	06:58 PM	04:56 PM	12:30 PM	04:41 AM	06, Wed	11
08:11 PM	06:58 PM	04:56 PM	12:30 PM	04:40 AM	07, Thu	12
08:11 PM	06:59 PM	04:57 PM	12:30 PM	04:40 AM	08, Fri	13
08:12 PM	06:59 PM	04:57 PM	12:30 PM	04:39 AM	09, Sat	14
08:12 PM	06:59 PM	04:57 PM	12:30 PM	04:38 AM	10, Sun	15
08:12 PM	07:00 PM	04:58 PM	12:30 PM	04:38 AM	11, Mon	16
08:13 PM	07:00 PM	04:58 PM	12:30 PM	04:37 AM	12, Tue	17
08:13 PM	07:00 PM	04:59 PM	12:30 PM	04:37 AM	13, Wed	18
08:14 PM	07:00 PM	04:59 PM	12:30 PM	04:36 AM	14, Thu	19
08:14 PM	07:01 PM	04:59 PM	12:30 PM	04:36 AM	15, Fri	20
08:15 PM	07:01 PM	05:00 PM	12:30 PM	04:36 AM	16, Sat	21
08:15 PM	07:01 PM	05:00 PM	12:30 PM	04:35 AM	17, Sun	22
08:16 PM	07:02 PM	05:00 PM	12:30 PM	04:35 AM	18, Mon	23
08:16 PM	07:02 PM	05:00 PM	12:30 PM	04:34 AM	19, Tue	24
08:17 PM	07:02 PM	05:01 PM	12:30 PM	04:34 AM	20, Wed	25
08:17 PM	07:03 PM	05:01 PM	12:30 PM	04:34 AM	21, Thu	26
08:18 PM	07:03 PM	05:02 PM	12:30 PM	04:33 AM	22, Fri	27
08:18 PM	07:03 PM	05:02 PM	12:31 PM	04:33 AM	23, Sat	28
08:18 PM	07:04 PM	05:03 PM	12:31 PM	04:32 AM	24, Sun	29
08:19 PM	07:04 PM	05:03 PM	12:31 PM	04:32 AM	25, Mon	30

यह टाइम टेबल चंदगड अजरा गढहिंगलच के लिए नेट से तय्यार किया है

مسجد میں داخل ہونے کی دुआ	اللّٰهُمَّ فَرِّجْ لِيْ رَحْمَةً،	नियत एतकाफ	नवैतु सुन्नतल एतकाफ
مسجد से निकलने की दुआ	اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَجْزِكَ	पहला अशरह में	अल्लाहुम्मर-हमना या अरह्वर-रहिमीन
अफ्तारी की दुआ	“اللّٰهُمَّ لَكَ مُسْتَوِيٌّ وَ أَلَا رِيْزِكِيْكَ अफतरतो”	दुसरे अशरह में कसरत से पढ़ें।	अल्लाहुम्मग फिर-लना जुनू बना या रब्वल आलमीन
शबेकदर की दुआ	“اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَجْزِكَ، تُو हिब्वुल-अफव, फअफु अन्नी”	तीसरे अशरह में कसरत से पढ़ें।	अल्लाहुम्म किना अज़बन्नार व अद खिलनल जन्नत मअल अबरार या अजीजू या गफफार

दुआ ए कुनूत: अल्लाहुम-म इन्ना नस्तईनु-क व नस्तगिफरु-क व तुउ मिनु बि-क व न-त-वक्कलु अलै-क व तुस्त्री अलैकल खै-र व नशकुरु-क व ला नक्फुरु-क व नखलउ व नतरुकु मंय्यफजुरु-क. अल्लाहुम-म इय्या-क नअवुदु व ल-क नुसल्ली व नसजुदु व इलै-क नसआ व नहिफदु व नजू रहम-त-क व नखशा अजा-ब-क इन-न आजा-ब-क बिल कुफफारि मुलहिक.

शरई मसाइल के लिए टाइप करें muftiabdullahizrail.weebly.com और Ask Questin पर क्लिक करके अपना gmail और सवाल लिख कर क submit पर क्लिक करें। जवाब आपके मेल पर आजाए गा . रामज़ा का टाइम टेबल पढ़ने और डौनलोड के लिए <https://deenimaloomat.blogspot.com> पर जा कर दुआ पर क्लिक करें

तालिबे दुआ : मुफ्ती मो. अब्दुल्लाह इज़राइल क़ासमी.